

भारतीय मानक ब्यूरो  
बं. शा. प्रयोगशाला, बंगलूरु

हमारा सन्दर्भ: BNBOL/LRS/OSL-6136726

27 मार्च 2019

विषय: मै. स्टेपिट लेब्स, बंगलूरु के मान्यता क्षेत्र में परिवर्तन

सक्षम अधिकारी के अनुमोदन अनुसार, मै. स्टेपिट लेब्स, # 304, 7<sup>वां</sup> मेन, एच आर बी आर लेआउट, प्रथम ब्लॉक, बनस्वाडी, बंगलूरु – 560 043 (कर्नाटक) की मान्यता क्षेत्र में दिनांक 22 मार्च 2019 से परिवर्तन किया गया है।

प्रयोगशाला का परिवर्तित मान्यता क्षेत्र अनुबंध 1 में संलग्न है।

सु. कु. अरोड़ा

वै. सी. एवं प्रभा. अधि. (प्र. मा. योजना)

वै. एफ. एवं प्रमुख, बं. शा. प्र.

वै. एफ. एवं प्रमुख, एल पी पी डी

भारतीय मानक ब्यूरो के सभी क्षेत्र. कार्यालय / शा. कार्यालय / प्रयोगशालाएं / सी एम डी - I , II , III

आई टी एस : कृपया संलग्न संलग्न किये गए प्रपत्र को भारतीय मानक ब्यूरो के इंटरनेट पर अपलोड करें।

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**  
**BNBOL, BANGALORE**

Our Ref:BNBOL/LRS/OSL-6136726

27 March 2019

**Subject:** Modification in the scope of recognition of M/s Stepit Labs, Bangalore

As approved by the Competent Authority, the scope of recognition of M/s Stepit Labs, #304, 7<sup>th</sup> Main, HRBR Layout, 1<sup>st</sup> Block, Banasvadi, Bangalore - 560 043(Karnataka) has been modified w.e.f. 22 March 2019.

The modified scope of recognition of the lab is enclosed as **Annexure 1**.

S K Arora  
Sc-C, OIC (LRS)

Sc-F & Head, BNBOL

Sc-F & Head, LPPD

All ROs/BOs/Labs/CMD-I/CMD-II/CMD-III

ITS, BIS HQs: Kindly upload the circular on BIS Intranet

**Annexure 1**

<b>Validity of Recognition</b>		From 21/04/2018 to 20/04/2021		
<b>OSL CODE</b>	6136726	<b>CONTACT</b>	Mr. K. Venkatesan, Managing Partner / Quality Manager	
<b>NAME &amp; ADDRESS</b>	M/s Stepit Labs, #304, 7 <sup>th</sup> Main, HRBR Layout, 1 <sup>st</sup> Block, Banasvadi, Bangalore - 560 043.	<b>TELEPHONE</b>	9945571110	
		<b>FAX</b>	--	
		<b>E-mail</b>	venkatesan@stepitlabs.com	
		<b>REMARKS</b>	Scope modified on 27/03/2019	
<b>S. No.</b>	<b>IS Number</b>	<b>Product</b>	<b>Testing Charges</b>	<b>Remarks</b>
1	IS 16046:2015	Secondary Cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications	Rs. 58000/- for Lithium system cells; Rs. 48000/- for Lithium system batteries; Rs. 139000/- for Nickel system cells; Rs. 102000/- for Nickel system batteries	<b>IS valid up to 11/07/2019</b> Transport test (cl.8.3.8) based on based on manufacturer's documents to demonstrate compliance
2	IS16046 (Part 1): 2018	Secondary Cells and Batteries Containing Alkaline or Other Non-Acid Electrolytes — Safety Requirements for Portable Sealed Secondary Cells and for Batteries Made from Them for Use in Portable Applications (Nickel Systems)	Rs. 85000/- for Nickel systems cells; Rs. 70000/- for Nickel systems batteries	<b>Included w.e.f 27/03/2019</b>
3	IS16046 (Part 2): 2018	Secondary Cells and Batteries Containing Alkaline or Other Non-Acid Electrolytes — Safety Requirements for Portable Sealed Secondary Cells and for Batteries Made from Them for Use in Portable Applications (Lithium Systems)	Rs. 52000/- for Lithium systems cells; Rs. 59000/- for Lithium systems batteries	<b>Included w.e.f 27/03/2019</b>
4	IS 16270:2014	Secondary Cells and Batteries for photovoltaic Application – General requirements and methods of Test	Rs. 558000/- for Lead-Acid batteries up to 250 Ah; Rs. 547000/- for VRLA batteries up to 250 Ah; Rs. 840000/- for Nickel System batteries up to 250 Ah	<b>Included w.e.f 27/03/2019</b> (25% discount for BIS Samples)